


## Strumming Exercise In 6 Keys



### In 4/4 Time

*C/// Am/// F/// G7///*  
*C/// Am/// F/// G7///*  
*C/// Am/// F/// G7/// C/// E7 r / r*


*A/// F#m/// D/// E7///*  
*A/// F#m/// D/// E7///*  
*A/// F#m/// D/// E7/// A/// D7 r / r*

*G/// Em/// C/// D7///*  
*G/// Em/// C/// D7///*  
*G/// Em/// C/// D7/// G/// A7 r / r*

*D/// Bm/// G/// A7///*  
*D/// Bm/// G/// A7///*  
*D/// Bm/// G/// A7/// D/// C7 r / r*

*F/// Dm/// Bb/// C7///*  
*F/// Dm/// Bb/// C7///*  
*F/// Dm/// Bb/// C7/// F/// F7 r / r*

*Bb/// Gm/// Eb/// F7///*  
*Bb/// Gm/// Eb/// F7///*  
*Bb/// Gm/// Eb/// F7/// Bb/// Bb.....*



### In 3/4 Time

*C// Am// F// G7//*  
*C// Am// F// G7//*  
*C// Am// F// G7// C// C// E7// E7//*

*A// F#m// D// E7//*  
*A// F#m// D// E7//*  
*A// F#m// D// E7// A// A// D7// D7//*

*G// Em// C// D7//*  
*G// Em// C// D7//*  
*G// Em// C// D7// G// G// A7// A7//*

*D// Bm// G// A7//*  
*D// Bm// G// A7//*  
*D// Bm// G// A7// D// D// C7// C7//*

*F// Dm// Bb// C7//*  
*F// Dm// Bb// C7//*  
*F// Dm// Bb// C7// F// F// F7// F7//*

*Bb// Gm// Eb F7//*  
*Bb// Gm// Eb F7//*  
*Bb// Gm// Eb F7// Bb// Bb// Bb.....*

#### Note

This 3/4 time pattern can be adapted so that the exercise can be done in 2/4 time and in single hits - just do less strums on each chord.